



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1932 (श0)  
(सं0 पटना 686) पटना, बुधवार, 29 सितम्बर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2010

सं0 बी1-3-68/2010-23—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 के अवसर पर 22—शिवहर, 23—रीगा, 24—बथनाहा (अ.जा.), 25—परिहार, 26—सुरसंड, 27—बाजपट्टी, 28—सीतामढ़ी, 29—रुन्नीसैदपुर, 30—बेलसंड, 78—कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), 79—गौड़ाबौराम, 80—बेनीपुर, 81—अलीनगर, 82—दरभंगा ग्रामीण, 83—दरभंगा, 84—हायाघाट, 85—बहादुरपुर, 86—केवटी, 87—जाले, 88—गायघाट, 89—औराइ, 91—बोचहॉ (अ.जा.), 92—सकरा (अ.जा.), 93—कुढ़नी, 94—मुजफ्फरपुर, 95—काँटी, 96—बरुराज, 131—कल्याणपुर (अ.जा.), 132—वारिसनगर, 133—समस्तीपुर, 134—उजियारपुर, 135—मोरवा, 136—सरायरंजन, 137—मोहिउद्दीननगर, 138—विभूतिपुर, 139—रोसड़ा (अ.जा.), 140—हसनपुर, 12—नरकटिया, 17—पिपरा, 18—मधुबन, 20—चिरैया, 21—ढाका, 90—मीनापुर, 97—पारु एवं 98—साहेबगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या—बी1-3-68/2010- 22 दिनांक 29.09.2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या— 464/बिहार-वि.स./2010 दिनांक 29.09.2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

—सह—सरकार के उप सचिव।

## निर्वाचन विभाग

## अधिसूचना

29 सितम्बर 2010

सं० बी१-३-६८/२०१०-२२—यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो. 27 नवम्बर, 2010 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्विनियमित बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

## सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
22—शिवहर
23—रीगा
24—बथनाहा (अ.जा.)
25—परिहार
26—सुरसंड
27—बाजपट्टी
28—सीतामढ़ी
29—रुन्नीसैदपुर
30—बेलसंड
78—कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
79—गौड़ाबौराम
80—बेनीपुर
81—अलीनगर
82—दरभंगा ग्रामीण
83—दरभंगा
84—हायाघाट
85—बहादुरपुर
86—केवटी
87—जाले
88—गायघाट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
89-औराई
91-बोचहॉ (अ.जा.)
92-सकरा (अ.जा.)
93-कुढ़नी
94-मुजफ्फरपुर
95-कौटी
96-बरुराज
131-कल्याणपुर (अ.जा.)
132-वारिसनगर
133-समस्तीपुर
134-उजियारपुर
135-मोरवा
136-सरायरंजन
137-मोहिउद्दीननगर
138-विभूतिपुर
139-रोसड़ा (अ.जा.)
140-हसनपुर
12-नरकटिया
17-पिपरा
18-मधुबन
20-चिरैया
21-ढाका
90-मीनापुर
97-पारू
98-साहेबगंज

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

*The 29th September 2010*

No. - B1-3-68/2010-22—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 27<sup>th</sup> November, 2010 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

**TABLE**

<b>Number and name of the Assembly Constituency</b>
22- Sheohar
23-Riga
24-Bathnaha(SC)
25-Parihar
26-Sursand
27-Bajpatti
28-Sitamarhi
29-Runnisaidpur
30-Belsand
78-Kusheshwar Asthan(SC)
79-Gaura Bauram
80-Benipur
81-Alinagar
82-Darbhanga Rural
83-Darbhanga
84-Hayaghat
85-Bahadurpur
86-Keoti
87-Jale
88-Gaighat

Number and name of the Assembly Constituency
89-Aurai
91-Bochaha(SC)
92-Sakra(SC)
93-Kurhani
94-Muzaffarpur
95-Kanti
96-Baruraj
131-Kalyanpur(SC)
132-Warisnagar
133-Samastipur
134-Ujiarpur
135-Morwa
136-Sarairanjan
137-Mohiuddinnagar
138-Bibhutipur
139-Rosera(SC)
140-Hasanpur
12-Narkatia
17-Pipra
18-Madhuban
20-Chiraia
21-Dhaka
90-Minapur
97-Paroo
98-Sahebganj

By order and in the name of Governor,

Sd/-Illegible,

*Chief Secretary to the Government of Bihar.*

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 सितम्बर, 2010/7 आश्विन, 1932 (शक)

सं० 464/बिहार-वि.स./2010:- यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	: 6 अक्टूबर, 2010 (बुधवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख	: 7 अक्टूबर, 2010 (वृहस्पतिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	: 9 अक्टूबर, 2010 (शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	: 24 अक्टूबर, 2010 (रविवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	: 26 नवम्बर, 2010 (शुक्रवार)
नियत करता है; और	

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

## सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
22-शिवहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
23-रीगा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
24-बथनाहा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
25-परिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
26-सुरसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
27-बाजपट्टी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
28-सीतामढ़ी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
29-रुन्नीसैदपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
30-बेलसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
79-गौड़ाबौराम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
80-बेनीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
81-अलीनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
82-दरभंगा ग्रामीण	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
83-दरभंगा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
84-हायाघाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
85-बहादुरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
86-केवटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
87-जाले	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
88-गायघाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
89-औरई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
91-बोचहॉ (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
92-सकरा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
93-कुढ़नी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
94-मुजफ्फरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
95-कौंटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
96-बरुराज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
131-कल्याणपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
132-वारिसनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
133-समस्तीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
134-उजियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
135-मोरवा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
136-सरायरंजन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
137-मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
138-विभूतिपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
139-रोसड़ा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
140-हसनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
12-नरकटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
17-पिपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
18-मधुबन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
20-चिरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
21-ढाका	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
90-मीनापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
97-पारु	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
98-साहेबगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

आदेश से,  
के० अजय कुमार,  
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001, Dated: 29<sup>th</sup> September, 2010/  
7 Asvina, 1932(Saka)*

NO. 464/BR-LA/2010:-WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 29<sup>th</sup> September, 2010, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-
- the 6<sup>th</sup> October, 2010 (Wednesday) , as the last date for making nominations;
  - the 7<sup>th</sup> October, 2010 (Thursday) , as the date for scrutiny of nominations;
  - the 9<sup>th</sup> October, 2010 (Saturday), as the last date for withdrawal of candidatures;
  - the 24<sup>th</sup> October, 2010 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 26<sup>th</sup> November, 2010 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
22- Sheohar	7.00 AM to 5.00 PM
23-Riga	7.00 AM to 5.00 PM
24-Bathnaha(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
25-Parihar	7.00 AM to 5.00 PM
26-Sursand	7.00 AM to 5.00 PM
27-Bajpatti	7.00 AM to 5.00 PM
28-Sitamarhi	7.00 AM to 5.00 PM
29-Runnisaidpur	7.00 AM to 5.00 PM
30-Belsand	7.00 AM to 5.00 PM
78-Kusheshwar Asthan(SC)	7.00 AM to 5.00 PM



Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
79-Gaura Bauram	7.00 AM to 5.00 PM
80-Benipur	7.00 AM to 5.00 PM
81-Alinagar	7.00 AM to 5.00 PM
82-Darbhangha Rural	7.00 AM to 5.00 PM
83-Darbhangha	7.00 AM to 5.00 PM
84-Hayaghat	7.00 AM to 5.00 PM
85-Bahadurpur	7.00 AM to 5.00 PM
86-Keoti	7.00 AM to 5.00 PM
87-Jale	7.00 AM to 5.00 PM
88-Gaighat	7.00 AM to 5.00 PM
89-Aurai	7.00 AM to 5.00 PM
91-Bochaha(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
92-Sakra(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
93-Kurhani	7.00 AM to 5.00 PM
94-Muzaffarpur	7.00 AM to 5.00 PM
95-Kanti	7.00 AM to 5.00 PM
96-Baruraj	7.00 AM to 5.00 PM
131-Kalyanpur(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
132-Warisnagar	7.00 AM to 5.00 PM
133-Samastipur	7.00 AM to 5.00 PM
134-Ujiarpur	7.00 AM to 5.00 PM
135-Morwa	7.00 AM to 5.00 PM
136-Sarairanjan	7.00 AM to 5.00 PM
137-Mohiuddinnagar	7.00 AM to 5.00 PM
138-Bibhutipur	7.00 AM to 5.00 PM
139-Rosera(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
140-Hasanpur	7.00 AM to 5.00 PM
12-Narkatia	7.00 AM to 5.00 PM
17-Pipra	7.00 AM to 5.00 PM
18-Madhuban	7.00 AM to 5.00 PM
20-Chiraia	7.00 AM to 5.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
21-Dhaka	7.00 AM to 5.00 PM
90-Minapur	7.00 AM to 3.00 PM
97-Paroo	7.00 AM to 3.00 PM
98-Sahebganj	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,

K. AJAY KUMAR,

*Secretary, Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 686-571+300-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>